

Motivational Programme

आज दिनांक 27/04/2019 को जून-विश्व विभाग के द्वारा कक्षा छात्रों को motivation speech दी गई जिसमें कि उनका मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कहा गया, और साथ ही कुछ छात्र/छात्रों से उन्होंने क्या सीखा? विभागीय लिस्टर में उनके द्वारा व्यक्त किया गया।

Motivation

- | | |
|--------------------|---|
| 1. विरेन्द्र कुमार | हमें अपने परिवार के लिये अपने आस पास |
| 2. सौरभ कठियाल | हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए। |
| 3. विजय कुमार | हमें अपने हर काम में अपना 100% देना चाहिए। |
| 4. नीरज लखेटा | हमें अपने परिवार के लिये में पानबुरा प्राप्त है। |
| 5. पंकज नेमी | हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। |
| 6. शीफ साहू | हमें कोई भी कार्य अधुन नही छोड़ना चाहिए। |
| 7. अलोक भट्ट | हमें जीवन के चोटि खिस मोड़ से गुजर रहे हैं हमें खुश रहना चाहिए। |
| 8- आशीष | हमें हमारे पर खुश होनी चाहिए |
| 9- प्रशान्त | हर चीज में बाउ चद कर भाग लो, |
| कन्नू प्रिया | हमारे Aim को देखने motivation मिला। |
| Murkan | Success के साथ behaviour भी जरूरी है, |
| Savita | हमें हमेशा positive सोचना चाहिए |
| Saloni | हमें खुद को हर क्षेत्र में maintain रखना है |
| Manisha | हमें अपने काम में 100% देना चाहिए |
| KANCHAN | किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छे सोच रखना। |
| Kashmi | में अपने हर काम अच्छी तरह से करनी |
| Aarti Bhatt | हमें हर काम में अपना 100% देना चाहिए। |
| Manasi Rawat | हमें हर काम में अच्छे करना |

Poochi

हमें Negative

सोच नहीं रखनी

Poochi

हमें हमेशा Positive thinking रखनी चाहिए।

Saha

हमें हमेशा हर काम मन से तथा 100% करना चाहिए।

Riya Bhandari

हमें हमेशा खुश रहना चाहिए

Deepika Rawat

हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए

Chetna

हमें हमेशा खुश रहना चाहिए

Shivanti Ka

कभी Negative नहीं सोचना चाहिए,

Yashoda

हमेशा Positive energy रखनी चाहिए,

Kajal Chamoli

हमें हमेशा positive सोचना

Rekha

चाहिए।

हमें

हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए

Ravina Chamoli

हमें

हमेशा हर काम में

100% देना चाहिए।

Rakhi

हमें

हमेशा खुश रहना

चाहिए

Kiran Semalty

हमें

हमेशा positive सोचना

चाहिए

Sarika

हमें

हमेशा अपना

100% देना चाहिए।

Kanokana

Time is important.

Shivani

हमें हर काम पूरे मन से करना चाहिए

Pinki Negi

हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।

Sarita

हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।

Laxmi

हमें हमेशा Positive रहना चाहिए।

Akanksha

दूसरों की help करनी चाहिए,

Sheetal

दूसरों की मदद करनी चाहिए

Lavita Patnai - अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा
संध्या बिष्ट - हमें हमेशा positive thinking चाहिए
Sonali Panwar - हमें हमेशा आकारात्मक सोच लेनी चाहिए।

Preeti Rawat - हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।

Ambika Rawat - हमें अपने समाज के प्रति सर्वेव श्रेष्ठ Positive Thinking रखनी चाहिए तथा जो खुश रहना चाहिए।

Anjali - हमें हमेशा Positive thinking रखनी चाहिए।
Anjali Rawat - दूसरों के प्रति सभी Negativity नहीं रखनी चाहिए।

Anjana -> Be Positive

Archana -> हमें हर समय अच्छा सोचना चाहिए
अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा।

Deepika -> No pain No gain.

Deepthi Sharma -> हमें Negative नहीं सोचना चाहिए,
और हमेशा Positive thinking रखनी चाहिए।

Diksha Chaudhary - हमेशा सत्य की राह में चलना चाहिए।

Rajani Khandelwal - डरना और डराना दोनों ही पाप हैं।

Priyanka Samwal - बुर बोलना अपराध है।

Manisha Panwar - Honesty is the best Policy

Maneeta Khandelwal - समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।

Kusum - हमें सभी विषयों के बारे में Negative नहीं सोचना चाहिए।

Kiran - हमें हमेशा Positive सोचना चाहिए।

1 Kavishoma - हमें हमेशा समय की अवधि या समझना चाहिए।

2 Kajal - हमें हमेशा Positive thinking रखनी चाहिए। और सभी को का आदर करना चाहिए।

3 Meena Chauhan - हमें कोई भी काम पूरे मन से करना चाहिए।

4 Manisha → हमें हमेशा positive सोचना चाहिए।

Heera Kandpal → हमें हमेशा अपने सभी काम में अपना 100% देना चाहिए, व positive thinking रखनी चाहिए सभी लोगों के लिए।

Manisha Rana ⇒ हमें अपने सभी काम 100% देना चाहिए and Teachers का आदर करना चाहिए।

Manisha Rana ⇒ हमें हर समय अच्छा सोचना चाहिए।
Kusum Rana - जिंदगी में कभी भी किसी को धोखा में न मारना।

Venu Topwal ⇒ Strive, positive thinking, character that is a goal of true education.

Nikita Chauhan - हमें हमेशा Positive thinking रखनी चाहिए।

Pooja Bhatt ⇒ हमें अपने सभी कामों में 90% देना चाहिए।
रखनी हैं।
सब हम छात्रों के लिए Positive thinking

sonam → हमें हमेशा समय पर सारे काम करने चाहिए तथा समय का महत्व समझना चाहिए।

Neeti Kumari :- Never give up. Life will give you more opportunities if you do your hard work sincerely.

Jaydeep Rawat :- हमें अपनी जिंदगी में हमेशा 100% से ही खुद की तुलना नहीं करनी है। कभी 0% से भी सोचना चाहिए। क्योंकि शून्य (0) हमेशा दूसरे के साथ जुड़ के उसका महत्व बढ़ा देता है। तथा किसी से हार के भी जाये तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता तथा सकारात्मक विचार हमेशा रखने चाहिए।

ASHISH KALA :- सोंते हुए सपने देखने पर जागने के बाद उन्हें पूरा करने में मुट जाओ।

Priyanka Sanyal :- कम करें भी आस करो।
आस करें भी अब ॥
पल में प्रलय ली जाती।
बहुते कभी का अब ॥

Sakshi Semwal :- हमें life में हमेशा positive thinking रखनी चाहिए। (Negative नहीं सोचना चाहिए कभी)।

Manisha Rana - हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए।
अच्छा मान रखनी चाहिए।
तथा हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा।

Shaguf + → हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहिए।

Rajkiran - करत करत अभ्यास ते, जडभत होव सुखान, रसरी आवत जात ते शिख पर परत विज्ञान, ॥
हमें अपनी भंजिल को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास करना चाहिए, तब तक जब तक की हमें हमारी भंजिल प्राप्त नहीं होती, कहते भी हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

Arjun Kumar - If we born poor, It is not our mistake.
If we die poor, It is our mistake. Will get said

Shailendra Kumar → दूसरो की गलती हमने निकाला आसान होता है, अगर कठिन कार्य करना मुश्किल है।

Abhishek Kumar → Well begun is half done.
Raman Shrivastava → Stay positive.

Harish Kala → Work hard and smart for your success if you don't want to work 9am - 5pm.

Vandana → हमें हमेशा समय की कद्र करनी चाहिए।

Vasundhara Negi - संकल्प व परिश्रम से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं।

Ranraj. Bhalawan - हमें हर कार्य 100% करना चाहिए।

Rahul Bawwan - हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए किसी के बारे में गलत सोचना या करना नहीं चाहिए।

Rajesh - उपदेश देने लायक नहीं।

Sushmita Biswat - हमें हमेशा हर काम में 100% देना चाहिए।

Shweta Shah - मेहनत भाग्य से बलवान होती है, अतः मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है।

Shivani - हमें अच्छा सोचना चाहिए, और अपने गुरुजनो का आदर करना चाहिए।

Sheetal Jyoti - सपने वो नहीं जो हमें नींद में आते हैं बल्कि सपने वो हैं जो हमें नींद से जगाते हैं।